



# इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) (सीआईएन L65910DL1986GO1026363)

पंजीकृत कार्यालय: यूजी फ्लोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: +91-011- 41063717 ई-मेल: [info@irfc.co.in](mailto:info@irfc.co.in), वेबसाइट: <https://irfc.co.in>

## INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN: L65910DL1986GO1026363)

Regd. Office: UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi - 110003

Phone: +91-011- 41063717 E-mail: [info@irfc.co.in](mailto:info@irfc.co.in), Website: <https://irfc.co.in/>

No: IRFC/SE/2023-24/27

12<sup>th</sup> August 2023

<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051	<b>BSE Limited</b> Listing Dept / Dept of Corporate Services, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai -400 001
<b>Scrip Symbol: IRFC</b>	<b>Scrip Code: 543257</b>

**Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed Newspaper Clipping of the advertisement published in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For **Indian Railway Finance Corporation Limited**

**(Vijay Babulal Shirode)**

**Company Secretary & Compliance Officer**

Enclosure: As Above



GOOGLE VS DRS LOGISTICS

# Google can't Claim Safe Harbour if its Activities Violate Trademarks: HC

Our Bureau

New Delhi: The Delhi High Court said Google LLC will not get the safe harbour of an intermediary under the information technology law if its activities are found to be infringing a trademark. It asked the tech giant to actively remove ads that infringe upon any trademark.



The HC noted that prior to 2004, Google did not permit use of trademarks as keywords in its search engine. However, after 2004, Google amended its policy, obviously, for increasing its revenue and subsequently introduced the tool, which actively searches the most effective keywords to display the ads. The HC noted that prior to 2004, Google did not permit use of trademarks as keywords. However, Google amended its policy, obviously, for increasing its revenue and subsequently introduced the tool, which actively searches the most effective keywords to display the ads.

A division bench of Justices Vibhu Bakru and Amit Mahajan said Google's Ads Programme is a commercial venture and, prima facie, encouraged users to use search terms, including trademarks, as keywords for display of the advertisements to the target audience.

"It can hardly be accepted that Google can encourage and permit use of the trademarks as keywords and in effect sell its usage and yet claim the said data as belonging to third parties to avail an exemption under Section 79(1) of the Information Technology Act," it said.

Under Section 79(1), an intermediary is not liable for any third-party information, data or communication link available or hosted by it.

The HC noted that prior to 2004, Google did not permit use of trademarks as keywords. However, Google amended its policy, obviously, for increasing its revenue and subsequently introduced the tool, which actively searches the most effective keywords to display the ads.

"It is verily believed that in 2009 Google estimated that use of trademarks as keywords would result in incremental revenue of at least \$100 million. Google is not a passive intermediary but runs an ad-

The observations came on an appeal filed by Google against a single Judge's interim order in a case involving DRS Logistics & Agarwal Packers and Movers Pvt Ltd, both constituents of the DRS Group. Google argued that it is entitled to protection as an intermediary under the 2002 Act.

DRS Logistics & Agarwal Packers had alleged that their trademark 'Agarwal Packers and Movers' was infringed upon by the search engine giant as its ads programme actively encouraged the use of the registered trademarks as keywords for third parties to display their sponsored links pertaining to keywords.

The division bench said the tech giant suggested keywords to advertisers, including the trademark of competitors.

# Airte's Gopal Vittal Earned More than Sunil Mittal in FY23

Vittal's gross remuneration at ₹16.84cr was a tad higher than Mittal's ₹16.77cr: Report

Kalyan.Parbat@timesgroup.com

Kolkata: Bharti Airtel managing director Gopal Vittal earned more than the company's chairman, Sunil Mittal, in 2022-23, according to the telecom carrier's latest annual report.


Vittal's gross annual remuneration at ₹16.84 crore was a tad higher than Mittal's ₹16.77 crore, it said. This was partly since there has been no change in the company chairman's annual salary & allowances component, at ₹10.06 crore, from the previous year, while Vittal's increased almost 10.4% year-on-year to ₹10.06 crore. In 2022-23, Mittal and Vittal's gross annual remuneration stood at ₹15.39 crore and ₹15.25 crore respectively.

Vittal's ₹16.84 crore annual remuneration in 2022-23 comprised salary and allowances (₹10.06 crore), a performance-linked incentive (₹6.74 crore) and a nominal sum towards perquisites, as per the report. His gross remuneration, though, did not include a perquisite value of ₹13.78 crore towards the value of stock options exercised during the year, said the annual report.

Mittal's ₹16.77 crore annual remuneration, in turn, comprised salary and allowances (₹10.06 crore), a performance-linked incentive (₹4.5 crore) and perquisites (₹2.2 crore).

Bharti Airtel's annual report said the change reflected in Mittal's gross remuneration in 2022-23 was on account of a change in the perquisite value, which was within the limits approved by the shareholders. "During FY23, he has received a remuneration of ₹2.2 million from an overseas subsidiary of the compa-

## In Numbers



Reason: There has been no change in chairman's annual salary & allowances.  
However, Vittal's remuneration increased almost 10.4% YoY

MITTAL AND VITAL'S GROSS ANNUAL REMUNERATION STOOD AT ₹15.39 CRORE AND ₹15.25 CRORE, RESPECTIVELY, IN 2021-22

ny Network 2i (UK)," it said. Mittal said Airtel's strong operating free cash flows amid accelerated investments in 5G and rural rollouts supported the company's debt reduction in FY23. "Airtel is collaborating with top enterprises engaged in manufacturing, mobility, healthcare, logistics and IoT, where 5G tech is becoming a catalyst for digital disruption, creating new revenue streams in the industry," the company's chairman said in the annual report.

# Jio Completes Acquisition of Mimosa Networks

MUMBAI Reliance Industries-owned Jio Platform has completed the acquisition of US-based communications equipment maker Mimosa Networks for \$60 million through its wholly owned subsidiary Radisy Corporation. The acquisition will allow Jio Platforms to strengthen its 5G and broadband services using Mimosa's point-to-point and point-to-multipoint products, RIL had said when the deal was announced in March. Our Bureau

# IT Firm Xoriant Buys Consulting Co Thoucentric

Bengaluru IT firm Xoriant on Friday said it has acquired consulting firm Thoucentric for an undisclosed sum. Thoucentric focuses on digital solutions in supply chain, sales & distribution, and finance. "Through this strategic acquisition, Xoriant aims to enhance its services by incorporating consulting into its portfolio. This addition paves the way for a comprehensive global provision of consulting, technology, and transformative solutions," a statement said. Sai Ishwarbharath

# Nykaa's Q1 Net Grows 8% YoY to ₹5.4 cr, Revenue Jumps 24%

Our Bureau

Bengaluru | New Delhi: FSN E-commerce Ventures, which operates beauty and fashion retail brand Nykaa, reported an 8% year-on-year increase in consolidated net profit to ₹5.4 crore for the fiscal first quarter. Revenue from operations rose 24% to ₹1,421.8 crore.



**Dataverse Nykaa says...**  
Premium category in the BPC segment is expected to grow faster than the mass category.  
It sees the premium segment commanding 55% of consumer spends in the beauty vertical by 2027

The company that operates both offline and online sales channels said the net sales value of its beauty and personal care (BPC) segment grew 23% during the April-June quarter to ₹1,129.8 crore. The BPC segment is the biggest contributor to Nykaa's revenue. Almost 90% of the gross merchandise value (GMV) in the segment during the quarter came from existing customers.

"Our beauty vertical continues to shape into an ecosystem of its own - with steady and balanced growth across our online platforms, physical footprint as well as our consumer brands.

Fashion's consumer brands also experienced steady growth with our own labels now spanning across categories," executive chairman and CEO Falguni Nayyar said on Friday.

The fashion retailer reiterated that the premium category in the BPC segment is expected to grow faster than the mass category. It sees the premium segment commanding 55% of consumer spends in the beauty vertical by 2027.

The company said its bets on recent acquisitions were paying off. GMV of beauty brand Do & Key has grown over five times since Nykaa acquired it in 2021. The brand is profitable and has crossed an annualised GMV run rate - based on the June-quarter GMV - of ₹90 crore, the company said.



NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.

"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

## NOTICE

Notice is hereby given that the following Trading Member of the National Stock Exchange of India Limited (Exchange) has been expelled from the membership of the Exchange under Rules 1 and 2 of Chapter IV of NSE's Rules.

Sl. No.	Name of the trading member	SEBI Registration No.	Date of expulsion
1.	RDQ Stock Broking Private Limited	INZ000297131	August 10, 2023

The constituents of the above-mentioned member are hereby advised to lodge claims, if any, in the prescribed claim form, against the above-mentioned member within 1 year from the date of expulsion of member.

All claims submitted by investors will be considered for processing if found due and payable in accordance with Rules, Byelaws, Regulations, guidelines etc. of the Exchange, SEBI circulars and Regulations and the maximum compensation limit per investor is ₹25 lakhs out of the Investor Protection Fund.

The claim can be lodged online on the Exchange portal <https://investorhelpline.nseindia.com/NICEPLUS/welcomeUser> where the relevant documents can be uploaded. A sample claim form and FAQ is made available on the Exchange website <https://www.nseindia.com/complaints/details-to-be-provided-for-lodging-claims> for the convenience of the claimants.

Alternatively, the claim form, duly filled and signed, along with the relevant documents may also be sent in physical form to the Defaulters' Section of the Exchange at 'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 or at the regional / branch offices of the Exchange. For this purpose, the format of the claim form may be downloaded from <https://www.nseindia.com> or obtained from the corporate offices at Mumbai or the regional / branch offices of the Exchange. However, the Exchange urges all claimants to make use of the online claim lodgment facility as mentioned above for better tracking of your claims.

In case of any queries, you may contact us on defaultis@nse.co.in or on toll free number 1800 266 0050 (Option - 5).

For National Stock Exchange of India Ltd. Sd/-

Place: Mumbai August 12, 2023



ONGC Jeeetega Toh Jeeetega India

NET ZERO by 2038 Scope-1 and Scope-2

### EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(₹ in Crore unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	33,874.33	42,320.72	155,517.32	1,63,823.59	1,62,883.75	6,84,828.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	13,560.58	20,342.97	59,630.04	23,739.81	12,894.25	51,188.70
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	13,560.58	20,342.97	59,395.33	23,739.81	12,225.59	43,050.76
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional Items)	10,075.04	15,025.85	38,828.87	17,382.97	8,580.75	32,777.01
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	12,452.39	13,682.32	38,310.22	18,778.82	13,145.48	35,048.89
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/- each)	6,290.14	6,290.14	6,290.14	6,290.14	6,290.14	6,290.14
7	Net worth	2,70,298.22	2,50,850.39	2,57,845.84	3,20,157.14	2,96,797.01	3,01,255.04
8	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,425.76	9,990.23	7,218.86	1,15,731.68	1,13,658.75	1,29,185.56
9	Other Equity	2,84,008.08	2,44,542.25	2,15,957.70	2,90,074.85	2,70,181.95	2,74,557.66
10	Capital Redemption Reserve	128.48	128.48	128.48	191.75	191.75	191.75
11	Debiture Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable	1,600.16	2,832.65	2,834.95
12	Earnings Per Share (Face value of ₹ 5/- each) - not annualised						
	(a) Basic (₹)	7.96	12.09	30.86	11.23	8.49	28.17
	(b) Diluted (₹)	7.86	12.09	30.86	11.23	8.49	28.17
13	Debt Equity Ratio	0.03	0.04	0.03	0.36	0.38	0.43
14	Debt Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	2.59	11.02	3.93
15	Interest Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	18.04	19.93	12.84
16	Current Ratio	1.54	1.36	1.29	1.02	0.88	0.86
17	Long Term Debt to Working Capital	0.26	0.45	0.45	9.32	---	---
18	Bad Debts to Account Receivable Ratio	---	---	---	0.01	---	---
19	Current Liability Ratio	0.33	0.39	0.39	0.37	0.45	0.42
20	Total Debts to Total Assets	0.02	0.03	0.02	0.18	0.18	0.21
21	Debtors Turnover	3.24	3.45	14.71	7.69	6.05	31.82
22	Inventory Turnover	4.11	5.26	19.22	3.81	3.35	13.92
23	Operating Margin (%)	42.49	49.57	40.08	15.93	7.95	8.73
24	Net Profit Margin (%)	29.82	35.93	24.97	10.81	4.69	4.69

### Oil and Natural Gas Corporation Limited

ONGC GROUP OF COMPANIES

Subsidiaries: PVTCL, TPC, JVC, etc.

Regd Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070. Tel: 011-26754002. Fax: 011-26129091. E-mail: secretariat@ongc.co.in

### INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)  
CIN-L65910DL1986GOI026363

Registered Office: UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi- 110003  
Ph: 011-41063717. Email: investors@irfc.co.in. Website: https://irfc.co.in

#### Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2023

(Amount in millions of INR, unless stated otherwise)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30 June 2023	31 March 2023	30 June 2022	31 March 2023
	(Unaudited)	Audited	(Unaudited)	Audited
(I) Revenue From Operations	66,791.73	62,360.75	56,274.36	2,38,912.75
(II) Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(III) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(IV) Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(V) Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	15,634.35	13,269.75	16,608.05	63,415.72
(VI) Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06
(VII) Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	3,39,652.46	3,24,018.11	2,95,866.39	3,24,018.11
(VIII) Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74
(IX) Net Worth	4,70,337.52	4,54,703.17	4,26,571.45	4,54,703.17
(X) Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	41,00,999.03	41,89,292.58	38,76,740.56	41,89,292.58
(XI) Debt Equity Ratio	8.72	9.21	9.09	9.21
(XII) Earning Per Share (of Rs. 10 each)				
- Basic (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85
- Diluted (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85

Notes:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on Friday, 11<sup>th</sup> August 2023.
- The above is an extract of the detailed format for the quarter ended 30th June 2023 financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30 June 2023 financial results is available on the website of the stock exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and the website of the Company (<https://irfc.co.in>).
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, and permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participant. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Bestal Financial & Computer Services (P) Ltd at [irfc@bestalfinancial.com](mailto:irfc@bestalfinancial.com).
- Shareholders are requested to claim their unpaid/unclaimed dividend, if any by writing to Company at its Registered Office or email at investors@irfc.co.in or to R&TA of the Company at [irfc@bestalfinancial.com](mailto:irfc@bestalfinancial.com). Dividends if not encashed for a consecutive period of seven (7) years lying with the Companies unpaid dividend accounts, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") along with the shares in respect of such unclaimed dividends.

Sd/- (Shelly Verma)  
Place: New Delhi Date: 11<sup>th</sup> August 2023  
CMD (Addnl. Charge), CEO & Director (Finance)  
DIN: 07935630

Important Notice: Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at [investors@irfc.co.in](mailto:investors@irfc.co.in) / Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at [irfc@bestalfinancial.com](mailto:irfc@bestalfinancial.com) which will be used for sending official documents through e-mail in future.

### Fast-tracking the Nation's Development

# Direct tax receipts jump 17% on-year

Growth higher than 9.4% projected for FY24

FE BUREAU New Delhi, August 11

**DIRECT TAX COLLECTIONS**, net of refunds, rose 17.3% year-on-year to ₹5,84 trillion till August 10 of the current financial year, the finance ministry said on Friday.

The growth was much higher than the 9.4% increase projected for the whole fiscal to achieve the annual gross direct tax target of ₹18.23 trillion. The receipts so far account for 32% of the FY24 target.

Direct tax collections, before refunds, grew 15.73% year-on-year to ₹6.53 trillion by August 10 of the current financial year. Refunds rose by a modest 3.73% year-on-year to ₹0.69 trillion between April 1 and August 10, 2023.

Due to lower excise duty receipts, indirect tax receipts grew around 9% year-on-year in Q1FY24 as against the required rate of 10.6% to achieve the annual target of ₹15.37 trillion.


However, the indirect tax growth rate is expected to pick up in the coming months as gross Goods and Services Tax (Centre and states) receipts grew by 11% in April-July of FY24.

With both tax and non-tax revenues on track, the government has also asked the ministries to accelerate spending in the first half of FY24, especially capex.

The Centre has released an agree-



## Direct tax revenues



gate of ₹3.1 trillion in tax devolution to states in April-July 2023, a huge 54% increase on year and about 30% of the FY2024 BE.

To meet the FY24 BE of ₹10.21 trillion, the Centre has to release ₹7.1 trillion to the states in the next eight months, which is 5% lower than the amount devolved in August-March in FY23.

To augment resources for the states to accelerate capital expenditure, the Centre released two instalments of tax devolution totalling ₹1.18 trillion for June instead of the normal monthly devolution of ₹59,140 crore.


The event is hosted by the Confederation of Indian Industry (CII) in collaboration with the Colombo Stock Exchange (CSE). —PTI

# Kharif sowing just above year-ago level; paddy area up 4.7%

SANDIP DAS New Delhi, August 11

**WITH JUST A fortnight left** for completion of sowing, the area under kharif crops was just above last year's level as on Friday. So far, 97.9 million hectare (MH) has been covered under the kharif crops, which is 90% of the normal sown area, recording a rise of 0.75% on year, while a week ago it was up 0.41%.

"In the next two weeks, sowing activities are expected to be completed as major parts of the country have received adequate monsoon rainfall," an agriculture ministry official told FE. However, after a surplus July, the Indian Meteorological Department (IMD) has predicted 'below-normal' rainfall for August, which according to



Source: agriculture ministry, \*including jute & mesta, Sown area as on August 11, 97.99 million hectare (MH) against average kharif (June-Sept) sown area of 107 MH.

officials, may impact the yield of crops, including paddy, pulses, oilseeds, cotton and sugarcane. Thanks to heavy downpour over

northwest, central and southern parts of the country in the last few weeks, paddy transplanting is currently up 4.7% year-on-year (y-o-

y). A month back, the gap was 9.8%. So far, rice has been transplanted on 32.8 MH, 82% of the normal sown area. Sowing will be completed in the next two weeks and harvesting of crops will commence from October 1.

Officials said there has been a delay in paddy sowing in several regions of central and south peninsula because of later arrivals of monsoon rains.

At present, only eastern Uttar Pradesh (-29%), Jharkhand (-36%), Bihar (-32%), West Bengal (-29%) and Rayalaseema (-24%) are reporting deficient rainfall. Rest of the key paddy producing states - Telangana, Chhattisgarh and Odisha - have received adequate rainfall in the last fortnight.

Sowing of pulses - tur, urad and moong - is lagging 7.9% on year so

far while the area under oilseeds including groundnut, soyabean and sunflower is marginally lower on year. While sugarcane planting has risen 1.5% on year, the area under coarse cereals such as maize, bajra and ragi is up 2.1%.

Cotton sowing is marginally below the last year's level, while area under sugarcane is up by 1.5% on year. It is an increase of 15% from the last five year's average.

According to IMD, overall monsoon rains has been at "normal" level, being just 1% below the benchmark - long period average (LPA) - till Friday. The met department has said 66% of 717 districts in the country have so far received normal or excess rainfall. The remaining 256 districts have received deficient and scanty rainfall.

## T.V. TODAY NETWORK LIMITED

Regd Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110 001, CIN: L92200DL1999PLC103001  
Website: www.aajtak.in, Email: investors@aajtak.com, Telephones: 0120-4908600, Fax: 0120-4325028

---

**EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023**

*(₹ in Crores, unless otherwise stated)*

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Three months ended June 30, 2023	Corresponding three months ended in the previous year June 30, 2022	Year ended March 31, 2023	Three months ended June 30, 2023	Corresponding three months ended in the previous year June 30, 2022	Year ended March 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	222.75	218.15	878.23	222.75	218.15	878.23
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	12.06	47.14	130.03	12.02	47.17	130.21
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	12.06	47.14	120.18	12.02	47.17	120.36
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	8.82	35.02	88.06	8.78	35.05	88.24
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	8.84	35.18	88.16	8.80	35.21	88.34
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- per share)	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	-	-	798.63	-	-	798.61
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
	(a) Basic (in ₹)	1.48	5.87	14.76	1.47	5.87	14.79
	(b) Diluted (in ₹)	1.48	5.87	14.76	1.47	5.87	14.79

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarter ended June 30, 2023 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended June 30, 2023 financial results are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website (www.aajtak.in).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 11, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of T.V. Today Network Limited  
Sd/-  
Aroon Purie  
Chairman and Whole-Time Director  
DIN: 00002994

Date: August 11, 2023  
Place: Mumbai

# Ideal time for Indian entities to invest in Sri Lanka: Semasinghe

**THE SRI LANKAN** economy is stabilising faster than previously anticipated and it would be an ideal time for India to invest in the island nation, state minister of Finance Sheehan Semasinghe said ahead of an industry event here on Friday.

"Our economy is stabilising faster than anticipated. We are confident that with all the reform agenda in place, the economy will start growing by 2024," Semasinghe said here ahead of an industry event "Invest Sri Lanka".

The event is hosted by the Confederation of Indian Industry (CII) in collaboration with the Colombo Stock Exchange (CSE). —PTI

## POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Maharatna Company)

"Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, Website: www.pfcindia.com  
CIN: L65910DL1986GOI24862

---

**Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2023**

*(₹ in Crores)*

Sr. No.	Particulars	Standalone		
		Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.06.2022	Year Ended 31.03.2023
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	10,138.94	9,033.52	39,651.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	3,671.04	2,539.89	14,170.62
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	3,671.04	2,539.89	14,170.62
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3,006.94	2,109.52	11,605.47
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,130.96	1,894.39	11,445.80
6	Paid up Equity Share Capital (Face value ₹10/- each)	2,640.08	2,640.08	2,640.08
7	Other Equity (As per Audited Balance Sheet as at 31st March)	NA	NA	65,562.15
8	Securities Premium Account	2,776.54	2,776.54	2,776.54
9	Net worth	71,365.51	61,059.91	68,202.23
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	366,507.21	314,469.92	362,637.83
11	Debt Equity Ratio	5.13	5.15	5.32
12	Earnings Per Share (EPS) (Face value ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)*			
	(a) Basic EPS (in ₹)	11.39	7.99	43.96
	(b) Diluted EPS (in ₹)	11.39	7.99	43.96

Sr. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter Ended 30.06.2023	Quarter Ended 30.06.2022	Year Ended 31.03.2023
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	20,992.49	18,532.25	77,568.30
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	7,401.01	5,511.27	26,496.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	7,401.01	5,511.27	26,496.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	5,982.14	4,579.53	21,178.59
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	6,288.61	3,692.45	20,047.88
6	Paid up Equity Share Capital (Face value ₹10/- each)	2,640.08	2,640.08	2,640.08
7	Other Equity (As per Audited Balance Sheet as at 31st March)	NA	NA	81,518.41
8	Earnings Per Share (EPS) (Face value ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)*			
	(a) Basic EPS (in ₹)	17.33	12.94	60.19
	(b) Diluted EPS (in ₹)	17.33	12.94	60.19

\*EPS for the Quarters is not annualised.

**Notes:**

- These unaudited financial results have been reviewed & recommended by the Audit Committee and subsequently approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 11.08.2023. The same have been limited reviewed by Dass Gupta & Associates, Chartered Accountants and Prem Gupta & Company, Chartered Accountants in terms of Regulation 33 & 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchanges' websites www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.pfcindia.com.
- The Board of Directors of the Company in its meeting held on 11.08.2023 recommended to issue Bonus Shares to the shareholders of the Company in the ratio of one bonus equity share of ₹10/- each fully paid up for every four existing fully paid up equity shares of ₹10/- each by capitalising the sum standing to the credit of 'Securities Premium Account' subject to the approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
- For other applicable disclosures as required under Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, refer detailed format of the financial results filed with the stock exchanges www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.pfcindia.com.

For and on behalf of Board of Directors

(Parminder Dhillon)  
Chairman and Managing Director (Adnl. Charge)  
& Director (Finance) DIN - 08530587

Date: 11.08.2023  
Place: New Delhi

## INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)  
CIN-L65910DL1986GOI26363

Registered Office: UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi-110003  
Ph: 011-41063717, Email: investors@irfc.co.in, Website: https://irfc.co.in

---

**Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2023**

*(Amount in millions of INR, unless stated otherwise)*

Particulars	Quarter Ended			
	30 June 2023	31 March 2023	30 June 2022	31 March 2023
	(Unaudited)	Audited	(Unaudited)	Audited
(I) Revenue From Operations	66,791.73	62,360.75	56,274.36	2,38,912.75
(II) Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(III) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(IV) Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(V) Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	15,634.35	13,269.75	16,608.05	63,415.72
(VI) Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06
(VII) Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	3,39,652.46	3,24,018.11	2,95,866.39	3,24,018.11
(VIII) Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74
(IX) Net Worth	4,70,337.52	4,54,703.17	4,26,571.45	4,54,703.17
(X) Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	41,00,999.03	41,89,292.58	38,76,740.56	41,89,292.58
(XI) Debt Equity Ratio	8.72	9.21	9.09	9.21
(XII) Earning Per Share (of Rs. 10 each)				
- Basic (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85
- Diluted (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85

**Notes:**

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on Friday, 11<sup>th</sup> August 2023.
- The above is an extract of the detailed format for the quarter ended 30th June 2023 financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30 June 2023 financial results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Company (https://irfc.co.in).
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, and permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com.
- Shareholders are requested to claim their unpaid/unclaimed dividend, if any by writing to Company at its Registered Office or email at investors@irfc.co.in or to R&TA of the Company at irfc@beetalfinancial.com. Dividends if not encashed for a consecutive period of seven (7) years lying with the Companies unpaid dividend accounts, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") along with the shares in respect of such unclaimed dividends.

Sd/-  
(Shelly Verma)  
CMD (Adnl. Charge), CEO & Director (Finance)  
DIN: 07935630

Place: New Delhi  
Date: 11<sup>th</sup> August 2023

**Important Notice:** Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at investors@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@beetalfinancial.com which will be used for sending official documents through e-mail in future.

## Fast-tracking the Nation's Development


# Is this how your teenage daughter passes time?



Mirror... the expression of teenager's first love, hours and hours in front of the mirror, trying out new hairstyles, latest designer wear and admiring new contours. What she needs is self-confidence. Any teenager is naturally over conscious of her physical development. But her mother knows about the natural process and also knows the right time when her daughter would need a bra. But will any bra suit her?

### For natural breast growth, a teenager needs a particular bra.

You must have observed that inspite of wearing a bra a teenager appears to be uncomfortable and feels a little awkward and shy. The reason: she wears a wrong bra, does not feel self-confident and relaxed. Even a bit of carelessness at this age will hamper the natural growth and will affect the figure and feminine beauty of your daughter.



### Why is the correct cup size required for teenagers?

For natural figure growth and comfort, it is necessary that your daughter should wear the proper cup size bra. There are 5 cup sizes in each bra size, A-small, B- medium, C-large, D-extra large & DD-double XL, so your daughter should get perfect fit bra.

### Teenager specifically designed for teenagers.

Designed with the advice and suggestions of medical experts, teenager provides the optimum support and comfort and helps in the natural growth of the figure. The Teenager bra has been carefully conceived after proper analysis.

Available in 100% Cotton, Lycra strap, in White and 5 Colours.



Trade enquiry solicited from unrepresented areas  
Belle Wears Pvt. Ltd. Delhi-95  
Customer Care: 9315853975  
E-mail: customercare@bellewears.in  
Website: www.teenagerbra.co.in



Perfect bra for growing girl.

**INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION**  
(A Government of India Enterprise)  
CIN-L65910DL1986GOI026363  
Registered Office: UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Palaham Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi- 110003  
Ph.: 011-41063717, Email: investors@irfc.co.in, Website: https://irfc.co.in

## INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED

### Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June 2023

(Amount in millions of INR, unless stated otherwise)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30 June 2023	31 March 2023	30 June 2022	31 March 2022
	(Unaudited)	Audited	(Unaudited)	Audited
(I) Revenue From Operations	66,791.73	62,360.75	56,274.36	2,38,912.75
(II) Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(III) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(IV) Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	15,565.74	13,277.05	16,615.80	63,370.13
(V) Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	15,634.35	13,269.75	16,608.05	63,415.72
(VI) Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Per Share)	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06	1,30,685.06
(VII) Other Equity Excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	3,39,652.46	3,24,018.11	2,95,886.39	3,24,018.11
(VIII) Securities Premium Account	19,008.74	19,008.74	19,008.74	19,008.74
(IX) Net Worth	4,70,337.52	4,54,703.17	4,26,571.45	4,54,703.17
(X) Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	41,00,999.03	41,89,292.58	38,76,740.56	41,89,292.58
(XI) Debt Equity Ratio	8.72	9.21	9.09	9.21
(XII) Earning Per Share (of Rs. 10 each)				
- Basic (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85
- Diluted (Rs.)	1.20	1.02	1.27	4.85

**Notes:**

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meeting held on Friday, 11<sup>th</sup> August 2023.
- The above is an extract of the detailed format for the quarter ended 30th June 2023 financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 & Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30 June 2023 financial results is available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Company (https://irfc.co.in).
- Previous periods figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to update their records such as tax residential status, and permanent account number (PAN), register their email addresses, mobile numbers and other details with the relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at irfc@beetalfinancial.com.
- Shareholders are requested to claim their unpaid/unclaimed dividend, if any by writing to Company at its Registered Office or email at investors@irfc.co.in or to R&TA of the Company at irfc@beetalfinancial.com. Dividends if not encashed for a consecutive period of seven (7) years lying with the Companies unpaid dividend accounts, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") along with the shares in respect of such unclaimed dividends.

-sd/-  
(Shelly Verma)  
CMD (Addnl. Charge), CEO & Director (Finance)  
DIN: 07935630

Place: New Delhi Date: 11<sup>th</sup> August 2023

**Important Notice:** Member(s) are requested to register/update their E-mail ID with company at investors@irfc.co.in/Depository participants/Company's Registrar & Share Transfer Agent at irfc@beetalfinancial.com which will be used for sending official documents through e-mail in future.

## Fast-tracking the Nation's Development

# vijay sales

Shop On [www.vijaysales.com](http://www.vijaysales.com)

## MEGA FREEDOM SALE

SPECIAL DEALS SUPER SAVINGS

UPTO ₹7,500 INSTANT DISCOUNT AND CASHBACK\*

WE ACCEPT EMI CARDS

Prices so low, you cannot resist.

Vijay Sales Apple Days

4<sup>th</sup> August 2023 Onwards

**UPTO 20% Cashback\* MAX UPTO -20,000\***

\*Terms and conditions apply. Limited Period Offer. Product balance very low. Offer valid till 02/08/2023. Apple Inc. All rights reserved. Exchange bonus up to ₹10,000\* Offer available at stores only.

Widest range of Televisions

Widest range of Mobiles

Widest range of Laptops

Widest range of Refrigerators

Widest range of Washing Machines

Widest range of Kitchen Appliances

Widest range of Small Accessories

Widest range of Refrigerators

**UPTO 5% Cashback\* MAX UPTO -2,500\* on Direct Cost**  
**UPTO 15% Cashback\* MAX UPTO -7,500\* on Frost Free**  
**UPTO 25% Cashback\* MAX UPTO -15,000\* on Side by Side**

Widest range of Washing Machines

**UPTO 5% Cashback\* MAX UPTO -3,000\* on Semi Automatic**  
**UPTO 20% Cashback\* MAX UPTO -12,000\* on Front Load**  
**UPTO 20% Cashback\* MAX UPTO -12,000\* on Top Load**

ON LEADING BANK CARDS

VIJAY SALES (INDIA) PVT. LTD.

DELHI | GURUGRAM | NOIDA | INDIRAPURAM | FARIDABAD | GHAZIABAD | MUMBAI | AHMEDABAD | VADODARA | SURAT | HYDERABAD | WARANGAL | ANDHRA PRADESH

DELHI - Model Town III | Pitampura | Rohini (E) | Paschim Vihar | Uttam Nagar (E) | Dwarka | Rajouri | Janakpuri | Rajouri Garden | Patel Nagar | Karol Bagh | Lajpat Nagar II | Kalkaji I | Saket J-Block | Vikas Marg | Shahdara | Daryaganj | Indirapuram | Ghaziabad | Noida | Greater Noida | Gurugram | Old Gurugram | Faridabad

Now Open - Hauz Khas | Narela | Dandehera | Najafgarh | Nangloi

\*Conditions apply. This offer includes all other discounts also. No other offer can be clubbed with this offer. Images shown are for illustrative purpose only. Offer till stocks last. Finance offer applicable at the sole discretion of Finance. #Processing Fee is applicable as per Finance. For Paper Finance: Please bring Aadhar Card, Pan Card, Electric Bill & Cancelled Cheque. Offer is based on minimum transactions slabs defined by Finance company. Kindly speak to our store sales staff for the "Terms and Conditions" of all the bank offers, and for the respective Instant Discount/Cashback amounts applicable on each Bank. For corporate bookings or bulk orders, please mail to [corporate@vijaysales.com](mailto:corporate@vijaysales.com).



